




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 585]
No. 585]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 9, 1998/भाद्र 18, 1920
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 9, 1998/BHADRA 18, 1920

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1998

का. आ. 792 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आबंटन) (दो सौ चालीसवां संशोधन) नियम, 1998 है।
(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।
- भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में,—
“ (क) “पर्यावरण और वन मंत्रालय” शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 9 और प्रविष्टि 19 का लोप किया गया जाएगा;
(ख) “सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय” शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 36 के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—
“ 37. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 (1960 का 59)।
38. पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण”।

के. आर. नारायणन

राष्ट्रपति

[फाईल सं. 1/22/1/98-मंत्रि.]

बी. के. गाबा, अवर सचिव

CABINET SECRETARIAT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd September, 1998

S.O. 792 (E).—In exercise of the powers conferred by Clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two Hundred and Fortieth Amendment) Rules, 1998.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—

“(a) under the heading “MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PARYAVARAN TATHA VAN MANTRALAYA)”, entries 9 and 19 shall be omitted;

(b) under the heading “MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SAMAJIK NYAYA AUR ADHIKARITA MANTRALAYA)”, after entry 36, the following entries shall be added, namely :—

“37. The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960).

38. Prevention of cruelty to animals.”.

K. R. NARAYANAN

PRESIDENT

[File. No. 1/22/1/98-Cab.]
V. K. GAUBA, Under Secy.